



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27—जून 2, 2006 (ज्येष्ठ 6, 1928)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27—JUNE 2, 2006 (JYAISTHA 6, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची		पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं		395
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं		463
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं		7
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं		671
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम		*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ		*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट		*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)		*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।		*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)		*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश		*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं		1385
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंट्स और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस		233
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं		*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं		1529
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस		427
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण		*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Page No. 395	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	Page No. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	463	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1385
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	671	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	233
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1529
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	427
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय
 (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2006

संकल्प

सं. ई. 4(3)/2003-रा.भा.(वि.वि.):— विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के दिनांक 23 मार्च 2005 के संकल्प सं.ई.4(3)/2003-रा.भा.(वि.वि.) को और आगे निम्नलिखित अनुसार संशोधित करने का संकल्प लिया गया है :-

उक्त संकल्प की क्रम संख्या 22 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"22. अपर सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
22 क. संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (प्रशा.)	सदस्य"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति हिन्दी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन. के. नम्पूतिरी
 संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (प्रशा.)

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2006

सं० ए-11019/1/2000-प्रशा०-III(वि०का०): आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 255 की उप धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा आयकर अपील अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तारीखों से उक्त उप धारा के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है:-

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम(सर्वश्री)	तारीख, जिससे एस.एम.सी. शक्तियां प्रदान की गई हैं
1.	चिरंजीलाल सेठी, न्यायिक सदस्य	28.03.2006
2.	एन०वी० वासुदेवन, न्यायिक सदस्य	22.03.2006
3.	आनंदी लाल गेहलोत, लेखा सदस्य	26.03.2006
4.	जे० सुधाकर रेड्डी, लेखा सदस्य	12.04.2006
5.	बाबूलाल खत्री, लेखा सदस्य	30.04.2006
6.	नरेन्द्र एस० सैनी, लेखा सदस्य	27.04.2006
7.	राजपाल यादव, न्यायिक सदस्य	19.03.2006
8.	एन० विजयकुमारन, न्यायिक सदस्य	04.04.2006
9.	रमेश सी० शर्मा, लेखा सदस्य	29.03.2006
10.	एन०आर०एस० गणेशन, न्यायिक सदस्य	19.04.2006
11.	एम०एल० गुप्तिया, लेखा सदस्य	30.04.2006

जोया हाडके
सहायक सरकारी काउन्सेल

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2006

संकल्प

विषय: इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं० 5 (3)/2004-डी-1 (.) भारत सरकार ने, लोहा और इस्पात की आपूर्ति, उपलब्धता, गुणवत्ता और बाजार प्रवृत्ति से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह और सहायता देने के लिए इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 31 जनवरी, 1986 के संकल्प सं० एस सी-1 (1)/86-डी 3 के तहत इस्पात उपभोक्ता परिषद का गठन किया था। इस इस्पात और उपभोक्ता परिषद के गठन में पिछली बार इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं० 5 (3) 2004-डी 1 के तहत संशोधन किया गया था।

2. मौजूदा प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अब निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 24 मार्च, 2006 के कथित संकल्प के क्रम सं० 7 के तहत इस्पात उपभोक्ता परिषद में संबंधित राज्यों/ संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नाम और पता
1	आंध्र प्रदेश	श्री जी. दयानंद राव, एम आई जी 1, एफ II ब्लॉक 1, बागलिंगमपल्ली, हैदराबाद-44 040-27663886, 09848019307 (मोबाईल) श्री पतकोटी नागेश्वर राव, 6-1-96/3, पदमारई नगर, हैदराबाद-500020 09849161530
2	बिहार	श्री महेन्द्र बैठा, वार्ड नं० 22, बारी उसूफ पुर, हाजीपुर, वैशाली (बिहार) श्री पुनीत राय, भू०पू० एम एल ए, दाउत बिघा, समीप-नालंदा मेडिकल कॉलेज, डाकखाना-बहादुर पुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना-26 (बिहार) दूरभाष: 3202 530

3	चंडीगढ़	श्री बलजिंदर सिंह
4	छत्तीसगढ़	श्री अमृत लाल भोई, मकान नं० 26/929 पंडित रवि शंकर शुक्ल, वार्ड नवदुर्ग चौक, राजा तालाब पीछे- पुजारी स्कूल, रायपुर, छत्तीसगढ़ 07712424414 (आवास), 09425504171 श्री श्याम लाल गौतम, दुर्ग 163, सुन्दर भवन, न्यू खुशीपुर, भिलाई दुर्ग (छत्तीसगढ़) 0788-2353749, 9329010369
5	दिल्ली	श्री ज्ञान चंद गौतम, मकान नं० 1235, गंजमीर खान, तुर्कमान गेट, नई दिल्ली-2 श्री राज कुमार भट्टी, 1/5028, बलबीर नगर, गली नं०1, शाहदरा, दिल्ली-32 22127693, 20078414 (मोबाईल)
6	गुजरात	श्री जगदीश भाई रामदास परमार, डा० अंबेडकर रोड, बकरावाडी, बड़ौदा (गुजरात) 390001 098795 48964 ठाकुर शामभुजी कोयाजी, महादेव वास, वेजलपुर गांव, वेजलपुर, अहमदाबाद-380051 079-55453947 (आवास), 09898042627
7	हरियाणा	श्री अमरजीत सिंह उर्फ सिकन्दर, 176/4 सुन्दर नगर, नरवाना रोड, जींद, हरियाणा श्री भीम सिंह महेश्वाल, मकान नं० 54 ई, न्यू ऋषि नगर, समीप-विश्वकर्मा मंदिर, पीछे- बस स्टैंड, हिसार, 01662-233410, 09416240664

8	हिमाचल प्रदेश	<p>श्री नासिर खान मकान नं० 203/10, समीप- प्रताप भवन, कच्चा टैंक, नाहन, जिला- सिरमौर, हिमाचल प्रदेश 01702-225423, 09816433346</p> <p>कैप्टन तेजवीर सिंह, गांव जामली, डा० सुरला तहसील, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश 01702-236056</p>
9	झारखंड	<p>श्री फजल खान, 5 फ्लीट लेन, बिस्तुपुर, जमशेदपुर- 831006 09431301506</p> <p>श्रीमती पूनम सिंह, मकान नं० डी/66, रोड नं० 1, पार्क रोड नं० 3, अशोका नगर, पीछे-डॉ० ए के वर्मा पैथोलॉजिकल लैब., रांची (झारखंड)</p>
10	जम्मू और कश्मीर	<p>श्री रफीक मलिक, मकान नं० 59 सी, गली बावा वाली, मोहल्ला जोगी गेट, जम्मू (जे एण्ड के) श्री संजीव मनमोत्रा, 123-बी, सैनिक कॉलोनी, जम्मू 94191-41189 (मोबाईल)</p>
11	मणिपुर	<p>श्री नगुईखोथांग हाओकिन, तुईबुआंग मुख्यालय, चूराचन्द्रपुर जिला, डाकखाना चूराचन्द्रपुर- 795128 मणिपुर</p> <p>श्री रामवाउ लैंगखम, देउलाहलेन, इम्फाल-795001, मणिपुर</p>
12	मध्य प्रदेश	श्री जयनारायण सागर,

		<p>गोदाम बस्ती, मेला ग्राउंड, पो0आ0 आर के पुरी, दातीपुर, मरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 07512326039, 9826436507 (मोबाइल)</p> <p>डा0 भंवर सिंह गंगवाल, 5/51 जी, संतरविदास नगर, समीप ननखेरा बस स्टैंड, इंदौर रोड, उज्जैन (मध्य प्रदेश) 0734-2517026, 9425091485</p>
13	महाराष्ट्र	<p>श्री क्रिआन माने, मकान नं0 97/54, बी डी डी चॉल, मुम्बई नं0 18</p> <p>श्री रवि गुरवा, मकान नं0 4/71, महात्मा गांधी अस्पताल, डा0 एस एस राव रोड, परेल, मुम्बई-12, महाराष्ट्र</p>
14	मिजोरम	<p>सुश्री प्रियंका कुमारी, सुपुत्री श्री राम शंकर सिंह, एम पी आर ओ स्टेशन, 2nd इंडियन रिजर्व बटालियन एडवांस हेड क्वार्टर, गांव- तुईवामित डाकखाना- थानरिल, एजवॉल, मिजोरम- 796009 9436191364</p>
15	उड़ीसा	<p>श्री काली प्रसाद पांडे, द्वारा राजन श्रीवास्तव एए/1 पीछे- होटल शालीमार पम्पोश रोड, राउरकेला-769004</p> <p>प्रो0 शील कुमार राय, द्वारा श्री रामदयाल दास रतन, कपिल विहार, चौलिया गंज, कटक-4, (उड़ीसा)</p>

16	पंजाब	<p>श्री हरबल विन्दर सिंह बोपाराई, वी पी ओ- रंजीत बाग, जिला- गुरदासपुर, पंजाब-143521 01874-254671, 09855336629</p> <p>श्री करतार सिंह पटना, 426-ई, भाई रणधीर सिंह नागर, लुधियाना 0161-2451651, 098159 16651 (मोबाइल)</p> <p>श्री बलजिन्दर सिंह, 3102, सेक्टर 21-डी, चंडीगढ़ 01722703491, 9815700024</p>
17	राजस्थान	<p>श्री धर्म पाल कटारिया, ग्राम-पोस्ट-पक्का सरना, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान 01552-241215, 094146-34627 (मोबाईल)</p> <p>श्री विजय सिंह भारतीया, ग्राम-पोस्ट-कमालपुर, वार्ड नं० 1 बाई-पास, भरतपुर शहर, राजस्थान 05644-226980, 094143-76804, 094132-43114</p>
18	सिक्किम	<p>श्री कुल बहादुर लिम्बू, द्वारा-श्री अर्जुन दारजी (न्यू होटल), काजी रोड, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम 03592221717</p> <p>श्री धीरज राय, द्वारा केशव राय, पी/ओ माचंग ईस्ट सिक्किम 03592214274</p>
19	त्रिपुरा	<p>श्री मृणमोय घोष, द्वारा-श्री दुलाल कान्ति घोष, पी ओ- ए डी नगर मिलन चक्रा, समीप-टी वी सेंटर,</p>

		<p>अगरतला (त्रिपुरा)-799003 9436129099</p> <p>श्री स्वदेश रंजन डे, नॉर्थ बनमालीपुर, पीछे- राजधानी होटल, पी.ओ. अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा- 799001 0222-7447</p>
20	उत्तर प्रदेश	<p>कुंवर आसिम खान, डी-176, तृतीय तल, अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-25</p> <p>श्री राम दास, गांव-फफुन्दा, पी एस- खरखोदा जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) दलित सेना</p>
21	उत्तरांचल	<p>डा० जे पी सिंह 'तूफानी', पी-113, 3 फेज, शिवालिक नगर, भेल, रानीपुर, हरिद्वार-249403 01334-232066 9897689149</p> <p>श्री दीवान राम पत्सवाल, राजिन्दर नगर न्यू बस्ती हल्द्वानी, हॉल राजिन्दर नगर, एल ए नं० 1, हल्द्वानी, पी ओ और तहसील हल्द्वानी, जिला-नैनीताल</p>

22	प० बंगाल	मो०शमसुज्जमान, गांव- नोर, डाकखाना- क्याताला, पीएस-बरुईपुर, जिला- साउथ 24 परगनास, प० बंगाल-743372 श्री मामल कान्ता भौमिक, डी-25/8, बेलूर गवर्नमेंट हाउसिंग एस्टेट, पो.ओ. सपुईपारा, बाली जिला, हावड़ा 9831705696
----	----------	---

3. दिनांक 24 मार्च, 2006 के कथित संकल्प के क्र०सं० 8 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को इस्पात उपभोक्ता परिषद में मीडिया के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने का निर्णय भी लिया गया है:-

1.	श्री डब्ल्यू एन सिंह, 501, कांति प्लेस, शास्त्री नगर, पटना-23
2	श्री अशोक चौधरी, एट दौलतपुर, पी ओ व पी एस: हाजीपुर 844 101 जिला- वैशाली दूरभाष-9810056923
3	श्री पूरन चन्द्र प्रसाद, चीफ रिपोर्टर, रांची एक्सप्रेस, एल आई जी, आर-128, हारमू हाउसिंग कॉलोनी, रांची दूरभाष: 09431321278
4	श्री विनय कुमार, यू एन आई, रांची प्रधान टॉवर, मेन रोड रांची दूरभाष: 09431442742
5	श्री बिजेन्द्र रावत (एच टी-हिन्दी), सी-सी/122, वर्तालोक अपार्टमेंट्स, गाजियाबाद 110 032 दूरभाष: 95120-2884574
6.	श्री जयशंकर गुप्ता (एच टी- हिन्दी), 26-बी, स्काईलार्क अपार्टमेंट्स, गाजीपुर, दिल्ली 110 096 दूरभाष: 9818095133, 22240305
7	श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा, (चीफ फोटोग्राफर, पी टी आई), 99, रविन्द्र नगर,

	समीप- खान मार्किट, नई दिल्ली-110 003 दूरभाष: 24616179
8	श्री वर्गीस जॉर्ज, इंडियन एक्सप्रेस 87, डी डी ए, एस एफ एस, पॉकेट-1 सेक्टर-1, द्वारका नई दिल्ली-110045 दूरभाष: 9810091710

4. दिनांक 24 मार्च, 2006 के संकल्प के पैरा 6 के तहत क्र०सं० 32 और 50 में उल्लिखित निम्नलिखित फर्मों/एसोसियेशनों के नाम और पते निम्नानुसार पढ़े जाएँ:-

क्र०सं० 32 फ़ैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के स्थान पर फ़ैडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, बी 30, 6 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001

क्र०सं० 50 मै० उषा बैल्ट्रोन लि० के स्थान पर मै० उषा मार्टिन लि०, 701, सूर्य किरण, 19 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों संघ शासित राज्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों को परिचालित की जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी हेतु इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कुमार अरविंद सिंह देव
संयुक्त सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2006

संख्या क्यू-16012/2/2005 ई एस ए (डब्ल्यू ई) जबकि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड 1958 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

और जबकि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3 में पुनर्गठन का प्रावधान है।

अतः अब उपर्युक्त नियम 3 के अनुसरण में और इस विषय पर पूर्ववर्ती अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतद्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन करती है और जनता की सूचना के लिए अधिसूचित करती है कि पुनर्गठित सोसायटी में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात:-

1.	श्री ए.डी.पाटील 14 सिद्धार्थ अपार्टमेन्ट आर जी थन्डानी मार्ग, वोर्ली सी फेस, मुम्बई 400018	अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामित)
भारत सरकार के प्रतिनिधि		
2.	संयुक्त सचिव या केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य देखने वाला समान स्तर का कोई अधिकारी, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
3.	वित्तीय सलाहकार श्रम और रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य
राज्य सरकार के प्रतिनिधि		
4.	आयुक्त, श्रम और रोजगार, गोवा सरकार, गोवा	
कामगार संगठनों के प्रतिनिधि		
5.	श्री बसंत पिम्पलापुरे अखिल भारतीय वित्त सचिव, भारतीय मजदूर संघ, 542 डॉ मुन्जे मार्ग, कांग्रेस नगर, नागपुर- 440012	सदस्य
6.	श्री के.लक्ष्मा रेड्डी, अखिल भारतीय सचिव, भारतीय मजदूर संघ, 542, दादा साहेब काम्बले भवन, कांग्रेस नगर, नागपुर 440012	सदस्य

7.	श्री शिव गोपाल मिश्र अध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा यू.पी राज्य परिषद, गौरी निवास, मावैया, लखनऊ (यू पी)	सदस्य
नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि		
8.	श्री हरेन्द्र कुमार, सदस्य एच आर डी और आई आर/ई आर संबंधी सी आई आई राष्ट्रीय समिति और एसोसिएट उपाध्यक्ष, वाणिज्यिक और कोरपोरेट संबंध टैकमसेह प्रॉडक्ट्स इंडिया (प्रा. लि.) 28, के एम, मथुरा रोड, बल्लभगढ़ 121004, हरियाणा	
9.	श्री श्रीराम अग्रवाल, लघु उद्योग भारती, कोरपोरेट कार्यालय ,82, सेक्टर 7 ए फरीदाबाद	सदस्य
10.	डॉ. एस एम दीवान, महानिदेशक, सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन, स्कोप काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003	सदस्य
11.	श्री बाबू लाल तोड़ी, अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन, मैसर्स टोडी इन्डस्ट्रीयल लि. टोडी एस्टेट, सन मिल कम्पाउन्ड, लोअर पारेल, मुम्बई, 400013	सदस्य
कामगार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के प्रतिनिधि		
12.	श्री एस के रॉय वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व कोषाध्यक्ष केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, 43 सरत बोस रोड, कोलकाता- 700020	

कामगारों के संगठन के दो प्रतिनिधियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक-एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार के तीन प्रतिनिधियों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे।

यू. डी. एन. सिधवानी
उप सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 4th May 2006

RESOLUTION

No.E.4(3)/2003-O.L.(L.D.) It is resolved further to amend the Resolution of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department No.E.4(3)/2003-O.L.(L.D.) dated the 23rd March, 2005 regarding reconstitution of Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Law and Justice, as under: -

In the said Resolution, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

“22. Additional Secretary, Legislative DepartmentMember
22A. Joint Secretary & Legislative Counsel (Admn.) Member.”

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of this Committee, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all Ministries and Departments of the Government of India .

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for the information of general public.

N. K. NAMPOOTHIRY
Joint Secy. & Legislative Counsel (Admn.)

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 9th May 2006

No. A-11019/1/2000-Admn.III (LA): In pursuance of sub-section (3) of Section 255 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorizes the following Members of the Income Tax Appellate Tribunal for the purpose of the said sub-section with effect from the dates mentioned against each of them:-

Sl.No.	Name & Designation (S/Shri)	Date on which SMC powers conferred
1.	Chiranjilal Sethi, Judicial Member	28.03.2006
2.	N.V. Vasudevan, Judicial Member	22.03.2006
3.	Anandi Lal Gehlot, Accountant Member	26.03.2006
4.	J. Sudhakar Reddy, Accountant Member	12.04.2006
5.	Babu Lal Khatri, Accountant Member	30.04.2006
6.	Narendra S. Saini, Accountant Member	27.04.2006
7.	Rajpal Yadav, Judicial Member	19.03.2006
8.	N. Vijayakumaran, Judicial Member	04.04.2006
9.	Ramesh C. Sharma, Accountant Member	29.03.2006
10.	N.R.S. Ganesan, Judicial Member	19.04.2006
11.	M.L. Gusia, Accountant Member	30.04.2006

ZOYA HADKE
Assistant Government Counsel

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 15th May 2006

RESOLUTION**Subject: Constitution of Steel Consumers' Council --- regarding.**

No. 5(3)/2004-D-I (.) The Government of India vide Resolution No. SC-1(1)/86-D-III dated 31st January, 1986 had constituted a Steel Consumers' Council under the chairmanship of Minister for Steel & Mines, to advise and assist the Central Government on matters relating to supply availability, quality and the market trend of iron and steel. The composition of the Steel Consumers' Council was last revised vide Ministry of Steel's Resolution No. 5(3)/2004-D-I dated 24th March, 2006.

2. In addition to the existing representatives, it has now been decided to nominate the following persons as representatives of respective States / Union Territories on the Steel Consumers' Council under Sl. No. 7 of the said Resolution dated 24th March, 2006.

Sl.No.	States/U.Ts	Name & Address
1.	Andhra Pradesh	Shri G. Dayananda Rao, MIG I, F II, Block 1, Baglingampalli, HYDERABAD – 44 040 – 27663886, 09848019307 (M) Shri Patakoti Nageshwar Rao, 6-1-96/3, Padmarainagar, HYDERABAD – 500020 09849161530
2.	Bihar	Shri Mahendra Baitha, Ward No.22, Bari Usuf Pur, Hazipur, VAISHALI (BIHAR) Shri Punit Rai, Ex. MLA, Daught Bigha, Near Nalanda Medical College, P.O. Bahadur Pur Housing Colony, PATNA – 26 (BIHAR) Tel: 3202530

3.	Chandigarh	Shri Baljinder Singh
4.	Chhatisgarh	<p>Shri Amritlal Bhoi, House No.26 / 929, Pandit Ravishankar Shukal, Ward Navdurga Chowk, Raja Talab Behind Pujari School, RAIPUR (CHHATISGARH) 0771 2424414 (R), 09425504171</p> <p>Shri Shyamlal Gautam, Durg 163, Sunder Bhawan, New Khushipar, BHILAI DURG (CHATTISGARH) 0788 – 2353749, 9329010369</p>
5.	Delhi	<p>Shri Gyan Chand Gautam, H.No.1235, Ganjmir Khan, Turkman Gate, NEW DELHI – 2</p> <p>Shri Raj Kumar Bhati, 1/5028, Balbir Nagar, Gali No.1, Shahdara, DELHI - 32 22127693,20078414 (M)</p>
6.	Gujrat	<p>Shri Jagdish Bhai Ramdas Parmar, Dr. Ambedkar Road, Bakravadi, BARODA (GUJRAT) 390001 098795 48964</p> <p>Thakor Shambhuji Koyaji, Mahadev Vas, Vejalpur Gam, Vejalpur, AHMEDABAD -380 051 079 – 55453947 (R), 098980 42627</p>
7.	Haryana	<p>Shri Amarjit Singh urf Sikandar, 176/4, Sunder Nagar, Narvana Road, JIND (Haryana)</p> <p>Shri Bhim Singh Maheshwal, House No.54E, New Rishi Nagar, Near Vishavkarma Mandir, Behind Bus Stand, HISAR 01662 – 233410, 09416240664</p>

8.	Himachal Pradesh	<p>Shri Nasir Khan, House No. 203/10, Near Partap Bhawari, Kaccha Tank Nahan, Zila Sirmor, HIMACHAL PRADESH 01702 – 225423, 09816433346</p> <p>Captain Tejvir Singh, Village Jamli, Dr. Suria Tehsil, Nahan, Zila Sirmor, HIMACHAL PRADESH 01702 - 236056</p>
9.	Jharkhand	<p>Shri Fazal Khan, 5 Feet Lane, Bishtupur, Jamshedpur- 831006 09431301506</p> <p>Smt. Poonam Singh, House No. D/66, Road No.1, Park Road No.3, Ashoka Nagar, Behind Dr. A.K.Verma Pathological Lab., RANCHI (JHARKHAND)</p>
10.	Jammu & Kashmir	<p>Shri Rafiq Malik, House No. 59 C, Gali Bava Wali, Mohalla Jogi Gate, JAMMU (J & K)</p> <p>Shri Sanjeev Manmotra, 123-B, Sainik Colony, JAMMU 94191-41189 (M)</p>
11.	Manipur	<p>Shri Nguikhothang Haokin, Tuibuang Hqtrs., Churachandpur District, P.O. Churachandpur – 795128, MANIPUR</p> <p>Shri Ramvau Langkham, Deulahlane, IMPHAL – 795001, MANIPUR</p>

12.	Madhya Pradesh	<p>Shri Jainarain Sagar, Godam Basti, Mela Ground, Post Office, R.K.Puri, Datipur, Murar, GWALIOR (M.P.) 0751 2326039, 9826436507 (M)</p> <p>Dr. Bhanwar Singh Gangwal, 5/51 G, Santravidas Nagar, Near Nanakhera Bus Stand, Indore Road, UJJAIN (M.P.) 0734 – 2517026, 9425091485</p>
13.	Maharashtra	<p>Shri Krian Mane, House No.97/54, B.D.D. Chawl, Mumbai No. 18</p> <p>Shri Ravi Gurva, House No.4/71, Mahatma Gandhi Hospital, Dr.S.S.Rao Road, PAREL, MUMBAI – 12, MAHARASHTRA</p>
14	Mizoram	<p>Ms. Priyanka Kumari, D/o Shri Rama Shankar Singh, MPRO Station, 2nd Indian Reserve Batallion Advance Hqrs., Vill. Tuivamit P.O. Thanril, Aizwal, Mizoram – 796009 9436191364</p>
15.	Orissa	<p>Shri Kali Prasad Pandey, C/O Rajan Srivastav AA/1 Behind Hotel Shalimar Panposh Road, Rourkela-769004</p> <p>Prof. Sheel Kumar Rai, C/o Shri Ramdayal Das Ratan, Kapil Vihar, Chaulia Ganj, KATTACK – 4, (ORISSA)</p>
16.	Punjab	<p>Shri Harbal Winder Singh Boparai, V.P.O. Ranjit Bagh, Distt. Gurdaspur, PUNJAB – 143521 01874 – 254671, 09855336629</p> <p>Shri Kartar Singh Patna, 426-E, Bhai Randhir Singh Nagar, LUDHIANA 0161 – 2451651, 098159 16651 (M)</p>

		Shri Baljinder Singh, 3102, Sector 21-D, CHANDIGARH 0172 2703491, 98157 00024
17.	Rajasthan	Shri Dharam Pal Kataria, Gram-Post-Pakka Sama, Zila Hanumangarh, RAJASTHAN 01552 – 241215, 094146-34627 (M) Shri Vijay Singh Bhartiya, Gram – Post – Kamalpura, Ward No.1 By-Pass, Bhartpur Shahar, RAJASTHAN 05644 – 226980, 094143- 76804, 094132 – 43114
18.	Sikkim	Shri Kul Bahadur Limboo, C/o Shri Arujn Darjee (New Hotel), Kazi Road, Gangok, EAST SIKKIM 03592221717 Shri Dhiraj Rai, C/o Keshab Rai, P/O Machang EAST SIKKIM 03592214274
19.	Tripura	Shri Mrinmoy Ghosh, C/o Shri Dulal Kanti Ghosh, P.O. A.D. Nagar, Millan Chakra, Near T.V. Centre, Agartala (Tripura) – 799003 9436129099 Sri Swadesh Ranjan Dey, North Banamalipur, Behind Rajdhani Hotel, P.O. Agartala, West Tripura – 799001 0222-7447
20.	Uttar Pradesh	Kunwar Asim Khan, D – 176, IIIrd Floor, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, NEW DELHI - 25

		Shri Ram Das, Village- FAFUNDA, PS – KHARKHODA DISTT. MEERUT (U.P.) Dalit Sena
21.	Uttanchal	Dr.J.P.Singh 'Toofani', P-113, 3 Phase, Shivalik Nagar, BHEL, Ranipur, HARIDWAR – 249403 01334 – 232066 9897689149 Shri Deewan Ram Patswal, Rajinder Nagar New Basti Haldwani, Hall Rajinder Nagar, LA. No. 1, HALDWANI, P.O. & THESIL HALDWANI, DISTT. NANITAL
22.	West Bengal	Md. Shamsuzzaman, Village : Nore, .P.O. Keyatala, P.S. Baruipor, Distt. South 24 Parganas, WEST BENGAL -743372 Shri Mamal Kanta Bhowmick, D-25/8, Belur Govt. Housing Estate, P.O. Sapuipara, Bali Dist. HOWRAH 9831705696

3. It has also been decided to nominate the following persons as representatives of media on the Steel Consumers' Council under Sl. No. 8 of the said Resolution dated 24th March, 2006.

1. Shri W.N.Singh,
501, Kanti Place,
Shastri Nagar,
PATNA – 23
2. Shri Ashok Choudhary,
At Daulatpur,
PO&PS : Hazipur 844 101
Distt : Vaishali
Tel : 9810056923

3. Shri Puran Chandra Prasad,
Chief Reporter, Ranchi Express,
LIG, R-128, Harmu Housing Colony,
Ranchi
Tel: 09431321278
4. Shri Vinay Kumar, UNI, Ranchi
Pradhan Tower, Main Road
Ranchi
Tel: 09431442742
5. Shri Bijender Rawat (HT – Hindi),
C-C/122, Vartalok Apartments,
Ghaziabad 110 032
Tel : 95120-2884574
6. Shri Jaishankar Gupta (HT – Hindi),
26-B, Skylark Apartments,
Ghaziipur, Delhi 110 096
Tel : 9818095133, 22240305
7. Shri Subhash Chander Malhotra,
(Chief Photographer, PTI),
99, Ravindra Nagar,
Near Khan Market,
New Delhi 110 003
Tel : 24616179
8. Shri Varghese George, Indian Express
87, DDA, SFS, Pocket-1
Sector-1, Dwarka
New Delhi-110045
Tel: 9810091710

4. The names and addresses of the following firms/associations mentioned in para 6 under Sl. No. 32 and 50 of the Resolution dated 24th March, 2006 may be read as under:-

Sl.No.32. Federation of Industries of India, B 30, 6 Tilak Marg
New Delhi-110001, instead of Federation of Indian
Industries .

Sl. No.50 M/s Usha Martin Limited, 701, Surya Kiran, 19
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 instead of
M/s Usha Beltron, Limited

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

KUMAR ARVIND SINGH DEO

Joint Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 12th May 2006

NOTIFICATION

No.Q-16012/2/2005-ESA(WE): Whereas the Central Board For Workers Education was established in 1958 under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860).

And whereas Rule 3 of the rules and Regulations of the Central Board for Workers Education provide for the reconstitution.

Now, therefore, in pursuance of Rule 3 aforesaid and in supersession of the earlier Notification on the subject, Government of India hereby reconstitute the Central Board For Workers Education and notify for information of the public that the reconstituted Society shall consist of the following persons namely :-

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Shri A.D.Patil
14, Siddharath Apartment
R.G.Thandani Marg,
Worli Sea Face, Mumbai-400 018. | Chairman
(Nominated by the
Government of India). |
|----|---|--|

REPRESENTATIVES OF GOVERNMENT OF INDIA

- | | | |
|----|---|--------|
| 2. | Joint Secretary or an Officer of
equivalent status looking after the work
of Central Board For Workers Education,
Ministry of Labour & Employment,
New Delhi. | Member |
| 3. | Financial Adviser,
Ministry of Labour & Employment,
New Delhi. | Member |

REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENT

- | | | |
|----|---|--------|
| 4. | Commissioner,
Labour & Employment,
Government of Goa,
Goa. | Member |
|----|---|--------|

REPRESENTATIVES OF WORKERS ORGANISATION

- | | | |
|----|--|--------|
| 5. | Shri Vasant Pimplapure,
All India Finance Secretary,
Bharatiya Mazdoor Sangh,
542, Dr. Munje Marg,
Congress Nagar,
Nagpur-440 012 | Member |
| 6. | Shri K. Lakshma Reddy,
All India Secretary,
Bharatiya Mazdoor Sangh,
542, Dada Saheb Kamble Bhawan,
Congress Nagar,
Nagpur-440 012. | Member |
| 7. | Shri Shiva Gopal Mishra,
President,
Hind Mazdoor Sabha,
UP State Council, Gauri Niwas,
Mavaiya, Lucknow (UP). | Member |

REPRESENTATIVES OF EMPLOYERS ORGANISATION

- | | | |
|-----|--|--------|
| 8. | Shri. Harendra Kumar
Member, CII National Committee on HRD
& IR/ER & Associate Vice-President,
Commercial & Corporate Relations,
Tecumseh Products India(P) Ltd.,
38, K.M. Mathura Road, Ballabgarh-121004,
Haryana. | Member |
| 9. | Shri ShriRam Agarwal
Laghu Udyog Bharati,
Corporate Office 82,
Sector 7A, Faridabad
Haryana | Member |
| 10. | Dr. S. M. Dewan,
Director General,
Standing Conference of Public Enterprises,
Scope Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003. | Member |

11. Shri Babulal Todi Member
All India Manufacturers Organization,
M/s Todi Industries Ltd.,
Todi Estate, Sun Mill Compound,
Lower Parel, Mumbai-400 013

**REPRESENTATIVE OF WORKERS WORKING IN THE FIELD OF WORKERS
EDUCATION.**

12. Shri S.K.Roy Member
Senior Education Officer
Executive Member & Former Treasurer,
Central Board for Workers Education,
43, Sarat Bose Road, Kolkata-700020.

The names of two representative of Workers Organization, one representative each from Ministry of Human Resource Development and University Grants Commission and three representatives of State Government will be notified later.

Director, Central Board For Workers Education will be the Member Secretary to the Board.

U. D. N. SIDHWANI
Deputy Secy.